



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रकाशरण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 367]

नई दिल्ली, बुध्द्वस्तिवार, नवम्बर 11, 1976/कार्तिक 20, 1898

No. 367]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 1976/KARTIKA 20, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November 1976

G.S.R. 875(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

THE DELIMITATION OF COUNCIL CONSTITUENCIES (UTTAR PRADESH) AMENDMENT ORDER, 1976

In exercise of the powers conferred by section 12 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the President, after consulting the Election Commission, is pleased to make the following Order further to amend the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order, 1951, namely:—

1. This Order may be called the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Amendment Order, 1976,

2. In the Delimitation of Council Constituencies (Uttar Pradesh) Order, 1951,—

- (a) in the TABLE below paragraph 2, for the existing entries relating to Serial No. 7 under "Graduates' Constituencies", Serial No. 7 under "Teachers' Constituencies" and Serial No. 17 under "Local Authorities' Constituencies", the following entries shall respectively be substituted, namely:—

Name of Constituency	Extent of Constituency	No. of Seats
1	2	3
<i>Graduates' Constituencies</i>		
"7. Kanpur-cum-Jhansi Graduates	Jhansi, Lalitpur, Jalaun, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Etawah and Unnao districts	1"
<i>Teachers' Constituencies</i>		
"7. Kanpur Teachers	Jhansi, Lalitpur, Jalaun, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, Etawah, Fatehpur, Banda and Hamirpur districts	1"
<i>Local Authorities' Constituencies</i>		
"17. Kanpur-Cum-Farrukhabad Local Authorities	Kanpur Dehat, Kanpur Nagar and Farrukhabad districts	2";

- (b) in paragraph 3, for the figures, letter and words "1st day of June, 1974", the figures, letters and words "1st day of July, 1976" shall be substituted.

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President.

[No. F.7(21)/76-Leg.II]

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कर्मचारी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1976

सां० का० नि० 876(अ)—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1976

राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, परिषद् निर्वाचन-

क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 इस आदेश का नाम परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1976 है ।

2 परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1951 में,—

(क) पैरा 2 के नीचे की सारणी में “स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र” के अधीन क्रम सं० 7 से संबंधित, “शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र” के अधीन क्रम सं० 7 से संबंधित, “स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र” के अधीन क्रम सं० 17 से संबंधित, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र		
“7. कानपुर एवं झांसी स्नातक	झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा और उन्नाव जिले	1”
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र		
“7. कानपुर शिक्षक	झांसी, ललितपुर, जालौन, कानपुर, देहात, कानपुर नगर, इटावा, फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर जिले	1”
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र		
“17. कानपुर-एवं-फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी	कानपुर देहात, कानपुर नगर और फर्रुखाबाद जिले	2”;

(ख) पैरा 3 में “1 जून, 1974” शब्दों और शब्द के स्थान पर “1 जुलाई, 1976” शब्द और शब्द रखे जायेंगे ।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 7(21)/76-वि० II]

के० के० सुन्दरम, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

